



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-05-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-05-21 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-05-22	2021-05-23	2021-05-24	2021-05-25	2021-05-26
वर्षा (मिमी)	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	20.0	22.0	23.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	12.0	13.0	14.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	90	85	75	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	45	35	25	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	310	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	3	2	1	1

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, आज कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। हवा के 6.0-8.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-उत्तर-पूर्व व उत्तर-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.0 से 25.0 व 10.0 से 15.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ईआरएफएस के अनुसार, 26 मई से 1 जून के दौरान राज्य में वर्षा, अधिक तथा अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। 21 मई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी है तथा कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने व तीव्र बौछार होने की भी सम्भावना है।

### सामान्य सलाहकार:

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर व इसके गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.1-0.3 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में अत्यधिक नमी की स्थिति दर्शाता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, आज कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। आज 21 मई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी है।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बरनाई मिल	मध्यम व कम उँचाई वाले क्षेत्रों में झंगोरा या साँवा की बुवाई झा इस पखवाड़े में कर सकते हैं। बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
लहसुन	लहसुन की फसल में वर्षा के जल का जमाव न होने दें, इसलिए खेत में जलनिकास का उचित प्रबन्ध करें।
चावल	घाटियो व कम ऊँचे क्षेत्रों में, सिन्चित दशा में रोपाई हेतु धान की नर्सरी डालें।
अदरक	कन्द को शोधन के पश्चात् अदरक की बुवाई करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आड़ू	आड़ू, प्लम, खुमानी की अगेती किस्मों की तुड़ाई जारी रखे गुठलीदार फलो को मण्डी भेजे।
प्याज	प्याज की फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओ को आहार मौसम के अनुसार ही दे, इस समय पशुओ के आहार में गेहूँ का चोकर व ज्वार की मात्रा में वृद्धि कर दे। इस गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें।